

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 15.10.2020

अन्तर राज्यीय 02 वाहन एवं मोबाइल चोर गिरफ्तार, 01 अदद चोरी का मोटर साईकिल व 01 अदद मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित लूट, चोरी व इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु डा0 कौस्तुभ (आई0पी0एस0) श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर, के पर्यवेक्षण में श्री बी0के सिंह, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ उ0नि0 गोरखपुर पुलिस टीम को लगाया गया था। दिनांक 14.10.2020 को श्री कमल प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 लालमन गुप्ता नि0 मुरारी का मिल चैक तरंग रोड थाना कोतवाली गोरखपुर द्वारा अपनी मोटर साईकिल होण्डा साइन यूपी 53 बी वी 6738 के घर के बाहर से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 843/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त चोरी गये वाहन की बरामदगी हेतु दिनांक 15.10.2020 को उ0नि0 श्री बब्लू कुमार, चैकी प्रभारी बेनीगंज थाना कोतवाली मय हमराह पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र व चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त चोरी के मोटर साईकिल व चोरी के मोबाइल सहित 02 व्यक्ति तरंग क्रासिंग होते हुए जनपद महाराजगंज जाने वाले हैं तथा वहीं पर मो0सा0 व मोबाइल को किसी के पास बेंच देगे इस सूचना के आधार पर उ0नि0 श्री बब्लू कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा तरंग क्रासिंग ओबर ब्रिज के नीचे छिपकर खड़े हो गये कि दो व्यक्ति मो0सा0 से आते हुए दिखायी दिये कि मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया के आधार पर उन्हें रोककर नाम पता पूछते हुए मो0सा0 व मोबाइल के कागजात् मांगे गये जो नहीं दिखा सके तथा दोनो व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना को स्वीकार किया गया है बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गणों का गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विजय वर्मा पुत्र स्व0 जय प्रकाश वर्मा नि0 ग्राम दुधरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, स्थायी पता ग्राम भगवानपुर पो0 बनियापार थाना बनियापार जनपद छपरा बिहार।
2. धर्मा कुमार महतो पुत्र शिव प्रसाद महतो नि0 जटेपुर उत्तरी कृष्णा नगर प्राइवेट कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर स्थायी पता महाराजपुर बाजार कढ़ाईगंज थाना तिलझाड़ी जनपद साहेबगंज झारखण्ड

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 15.10.2020 समय 11.30 बजे स्थान तरंग क्रासिंग ब्रिज के नीचे।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल होण्डा साइन यूपी 53 बी वी 6738
2. एक अदद मोबाइल फोन रेड-मी रंग नीला।

अपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	843/2020	379/411 भादवि	कोतवाली गोरखपुर	
2	844/2020	41/411 भादवि	कोतवाली गोरखपुर	
3	53/2018	403ए41ए411 भादवि ;अभि0 धर्मा के विरुद्ध	कोतवाली गोरखपुर	
4	47/2006	379ए411 भादवि ;अभि0 धर्मा के विरुद्ध	शाहपुर गोरखपुर	
5	निलध्2006	41ए411 भादवि ;अभि0 धर्मा के विरुद्ध	शाहपुर गोरखपुर	

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री संजीव कुमार (व0उ0नि0) थाना प्रभारी थाना कोतवाली गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री बब्लू कुमार चैकी प्रभारी बेनीगंज थाना कोतवाली गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री नन्द लाल यादव थाना कोतवाली गोरखपुर।
4. कां0 राकेष कुमार थाना कोतवाली गोरखपुर।